

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

11/3/73

सं० 34] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894  
 No. 34] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23, 1894

इस भाग से भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
 as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

*New Delhi, the 12th February 1973*

**No. Draw Back/PN-6/73.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Draw-back Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 3825 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

| Sub-Sl.<br>No. | Description of goods                   | Rate of drawback                                     |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3825           | Sanitary and Bathroom water fittings.— |                                                      |
|                | (A) Chromium-plated made of gun metal. | At the rate applicable against sub-serial No. 3708.  |
|                | (B) Chromium plated made of brass.     | At the rate applicable under sub-serial No. 3801(b). |

B. N. RANGWANI,  
Joint Director (Drawback).

**बिल मशालय**  
(राजस्व और बीमा विभाग)

**सार्वजनिक सूचना**

नई दिल्ली, 12 फरवरी 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 6/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, अमाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 3825 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जावेगा :—

| उप-क्रम सं०                                              | मान का विवरण                                        | प्रतिअदायगी की दर                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3825. शौचालय तथा स्नानागार में पानी के नलों की फिटिंग :— |                                                     |                                         |
| (क)                                                      | गन मेटल से निर्मित जिन पर क्रोमियम की परत चढ़ी हों। | उप-क्रम सं० 3708 पर लागू दर।            |
| (ख)                                                      | पीतल से निर्मित जिन पर क्रोमियम की परत चढ़ी हों।    | उपक्रम सं० 3801 के अन्तर्गत लागू दर पर। |

बी० एन० रंगवानी,  
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)